

Computer Literacy Course

To Build Your Digital World Foundation



आज की डिजिटल दुनिया में केवल पढ़ना-लिखना आना ही काफी नहीं है. समय बदल रहा है. और समय के अनुसार हम इंसानों को नए ज्ञान के साथ अपडेट रहना बहुत जरूरी है.

इसलिए, इस डिजिटल दुनिया की बेसिक आवश्यकता है - **कम्प्यूटर साक्षरता.**

जी हां! जिस तरह आज साक्षर होना कोई अतिरिक्त कौशल नहीं रह गया है ठीक इसी प्रकार आज कम्प्यूटर आना भी नई बात नहीं रह गई है. बल्कि, यह एक जरूरी और बुनियादी कौशल बन गया है. जो हर इंसान को आना चाहिए है.

इस काम में आपकी मदद के लिए ही हमने यह ऑनलाइन कम्प्यूटर साक्षरता कोर्स बनाया है ताकि आप कम्प्यूटर साक्षरता का बुनियादी कौशल सीख पाएं.

यह कोर्स मुझे क्यों करना चाहिए?

पहली बात, डिजिटल दुनिया में प्रवेश की पहली सीढ़ी कम्प्यूटर साक्षरता से होकर जाती है. इसलिए, कम्प्यूटर का बुनियादी कौशल आपको हर हाल में आना ही चाहिए. कम्प्यूटर का बुनियादी कौशल आपको डिजिटल कौशल हासिल करने में मदद तो करता ही है साथ में विभिन्न प्रकार के कम्प्यूटर जॉब्स प्राप्त करने के लायक आवश्यक कौशल भी देता है.

दूसरी और सबसे जरूरी बात यह है कि कम्प्यूटर साक्षरता कोर्स TutorialPandit के उस मिशन का हिस्सा है जिसके तहत हम ऑनलाइन 1 करोड़ लोगों को कम्प्यूटर साक्षर बनाना चाहते हैं. और इस कार्य को हम अकेले नहीं कर पाएंगे. हमें आपकी जरूरत है.

ना केवल आप खुद कम्प्यूटर साक्षर बनेंगे बल्कि अन्य लोगों को भी इस बुनियादी कौशल को सिखाने में हमारी मदद करेंगे. क्योंकि, आप लोग ही हमारे मिशन को जरूरी लोगों तक पहुँचाएंगे.

इसलिए, खुद कम्प्यूटर साक्षरता कोर्स में एडमिशन लें और अन्य लोगों के एडमिशन भी अवश्य कराएं.

क्या-क्या सिखाया जाएगा इस कोर्स में?

इस कोर्स को पूरा करने के बाद आप खुद को विश्वास के साथ कम्प्यूटर साक्षर कह पाएंगे और कम्प्यूटर की दुनिया को समझ जाएंगे. जिसके लिए इस कोर्स में निम्न टॉपिक्स को शामिल किया गया है.

- कम्प्यूटर का परिचय
- सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर
- ऑपरेटिंग सिस्टम
- नया कम्प्यूटर खरीदना और उसे तैयार करना

- कम्प्यूटर को स्टार्ट करने से लेकर उसे सही तरह चलाना
- डेस्कटॉप का परिचय और उसकी सेटिंग
- कम्प्यूटर प्रोग्राम इंस्टॉल करना और हटाना
- कम्प्यूटर सैटिंग

मुझे कोर्स कैसे सिखाया जाएगा?

यह कोर्स पूरी तरह से ऑनलाइन होगा जिसे आप स्मार्टफोन तथा कम्प्यूटर के द्वारा एक्सेस कर पाएंगे.

- सभी क्लास वीडियो द्वारा दी जाएगी. जरूरत के अनुसार लिखित नॉट्स भी उपलब्ध करवाए जाएंगे.
- कोर्स पूरी तरह से व्यावहारिक होगा यानि सिर्फ थ्योरि नही प्रैक्टिकल पर जोर होगा. जिसका सबूत आप खुद बनेगे.
- टॉपिक को पूरी तरह समझने के लिए वीडियो क्लास के अलावा क्विज तथा टेस्ट्स का बंदोबस्त भी किया गया है.
- **बोनस:** आपके ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए **Course Completion Certificate** भी दिया जाएगा.

मेरा एडमिशन करें

अब इंडिया बनेगा डिजिटल!